भारतीय विमानप AIRPORTS AUTHO

Corrigendu No.: AAI/(CNS-P)-03/2017-

बनाः "Supply of HF Transm ies". ऑनलाइन निविदा डाउनलोड व 7/2017, 17:00 बजे। Opening Date changed to 28/07/2017, 11:0 y. अधिक जानकारी के लिए lapp देखें।

ERVIN INVESTMEN

L65993DL1990PLC039397, Regd. elhi -110 001, Website: www.bervin

Notice of Boa

to Regulation 29 read with Regula India (Listing Obligations and Disc) hereby given that a meeting of the to be held on Thursday, 27th July, 2 Financial Results of the Company for

s per the provisions of the SEBI (P Company's Code for Prevention of the securities of the Company will b ne purpose of announcement / declara

notice can be accessed on the Corr Exchange website at www.bseindia.co

07.2017 ew Delhi

Karnataka B

set Recovery Managem

t Floor,Rajendra Park, Pusa Road, 11-25813466, E-Mail: delhiarm@ktkbank s, undersigned being the Authorised (securitisation and Reconstruction of Interest [Act], 2002(54 of 2002) an 13 (12) read with [rule 3] of the Sec

demand notice dated 08-02-2017 ors:(1) M/s Arihant Industries, Report No.201-202, Plot No.189-191, New Delhi-110035,(2) Mr.Sripal Santhosh Park, Uttam Nagar, New pal Jain, RZ-116, Santhosh Park, U ount mentioned in the notice being F khs Forty Seven Thousand Three nder PS Overdraft A/c No.5627000 017 within 60 days from the date of re rowers, mortgagor and the guarantor by given to the borrowers, mortgagor, dersigned has taken the Possess n exercise of the powers conferred o t read with Rule 8 and 9 of the Secu 12th day of July of the year 2017.

rowers, the mortgagor and the guarar by cautioned not to deal with the pr s with the property will be subject to uri Branch-New Delhi, for an amo Eleven Lakhs Sixty Eight Thousan y Five Only) Under PS Over Draft terest thereon from 01-07-2017, Plus rrower's attention is invited to provisi espect of time available, to redeem t

DESCRIPTION OF THE IM

part and parcel of the property beauth building constructed thereon, v 12,Village Hastsal,Delhi Estate,Abi -II,Uttam Nagar, New Delhi-11005 East: Part of Proper aries: North: Road 40 ftw

2.07.2017, Place: New Delhi

एम एस टी सी





JEEVAN VIKAS BUILDING, 30/31A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI - 110002 Tel.: 23214201, 23213945, Fax: 23216713

E-auction For Sale of Commercial/ Residential Properties

MSTC will conduct e-auction for sale of Commercial/ Residential Properties of AIR INDIA LTD. at Mumbai, Gurugram, Kolkata, Pune, Nassik, Goa, Bhuj, Ahmedabad, Gwalior & Lucknow. For details please visit www.mstcindia.co.in & www.mstcecommerce.com

For details log on to our website www.mstcecommerce.com or www.mstcindia.co.in

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED

Regd Off: D – 16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi – 110041

Contact No. +91-9899425575, CIN: L74899DL1993PLC056702 Email: supersecurities1993@gmail.com, info_hindsecurities@yahoo.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2017

	THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		NAME OF THE PARTY	CII, 2017		
	(Rs. in Lakhs					
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2017 (Audited)	Year to date figures for current period ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding three months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)		
1	Total income from operations (net)	50.57	188.29	24.58		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.72)	(0.87)	(5.99)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.72)	(0.87)	(5.99)		
ô	Equity Share Capital	510.05	510.05	510.05		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
В	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for					

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for quarter and Financial Year ended March 31, 2017 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The above results duly reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on May 29, 2017.

continiunig and discontinued operations)

3. The full format of the Audited Financial Results are available on the webiste of BSE (www.bseindia.com) and Company's website(www.supersecurities.in)

For Hind Securities & Credits Limited

Place: Delhi Date: 29.05.2017 (Jagdish Rai Bansal) Managing Director DIN: 00673384

NCLT reinstates Bakshi as MD of Connaught Plaza Restaurant Ltd

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 13

INAMAJOR setback to the USbased fast food chain McDonald's in India, the National Company Law Tribunal (NCLT) on Thursday restored its estranged partner Vikram Bakshi as the managing director of Connaught Plaza Restaurant.


The tribunal has said the meeting of Connaught Plaza Restaurants Ltd (CPRL) of August 6, 2013 in which Bakshi was removed as MD of the company was illegal, unjust and malafide.

"The status of Mr Vikram Bakshi as Managing Director of CPRLis restored," said a twomember NCLT bench headed by its President Justice M M Kumar.

The court has also appointed former Supreme Court judge G S Singhvi to act as administrator in the company with power to vote.

"He (Bakshi) shall continue to act as managing director of CPRL subject to passing of any resolution under the chairmanship of the administrator," the tribunal said.

It further observed: "All steps taken in pursuance of non-election of Vikram Bakshi as managing director are also declared illegal, unlawful, unjust and malicious."



The tribunal said the meeting of CPRL on August 6, 2013, in which Bakshi was removed as MD of the company, was illegal

CPRL, a 50:50 joint venture between McDonald's India Pvt (MIPL) and Bakshi, is the licensee for north and east India regions of the US fast food chain.

Bakshi was at loggerheads with the US based fast food chain over the management of CPRL. In a public notice on August 30, 2013, McDonald's India said: "Vikram Bakshi has ceased to be the managing director of Connaught Plaza Restaurants pursuant to expiration of Bakshi's term on July

However, Bakshi contested that he cannot be removed as MD through a general meeting of the company.

Amazon's payment biz raises ₹130 cr from parent co

HITA GUPTA New Delhi, July 13

AMAZON HAS INFUSED ₹130 crore into Amazon Pay (India), the company's payment business arm in the

इलाहाबाद विश्वास की परंपरा

(A Govt. of India Undertaking)

(0.02)

ALLAHABAD BANK A tradition of trust

1A, Banarsi Dass Estate, Timarpur, Delhi-110054, Ph. 011-23810246, 23819501, Email: br.del timar@allahabadbank.in BR : Timar/ADV/SARFAESI/45

POSSESSION-NOTICE (For immovable/Movable Properties) [Rule - 8(1)]

reas the undersigned being the Authorised Officer of the ALLAHABAD BANK under Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12)

and with rule 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued a demand notice dated 02/05/2017 calling upon the Borrowers Immendra Chauhan and Smt. Abha Thakur, H. No. 266, Pocket J & K, Dilshad Garden, Delhi-110095 to repay the amount oned in the notice being Rs. 52,44,803.00 (Rupees Fifty Two Lakhs Forty Four Thousand Eight Hundred Three Only) exclusive of interest as in Notice) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the assets/properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec. 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said on this 10" day of July of the year 2017. ntor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the acc

इनेशियो लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद लगभग 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 71 वर्षीय लूला को यह सजा सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भारी गबन और घूस लेने के दोषी पाए जाने के बाद सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार के चार और मामले में जांच का सामना कर रहे लूला सजा के खिलाफ अपील कर जेल से बाहर रह सकते हैं। करीब सात साल पहले कुर्सी से हटे लूला को उनके सामाजिक और आर्थिक सुधारों के ... लिए पूरी दुनिया ने प्रशंसा की थी।

आत्मघाती ह सुरक्षाकर्मिर

बगदाद, आईएएनएस। इराक के अनव आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइए बल के कबिलाई लड़ाकुओं के मुख्याल आत्मघाती बम हमले में नौ सुरक्षाकर्मियाँ 12 अन्य घायल हो गए।

एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी विस्फोटक उपकरणों से लैस आईएस व गर्मा शहर स्थित मुख्यालय के प्रवेश द्वार है हुई भीषड़ लड़ाई के दौरान खुद को उड़ा

यह हमला गुरुवार को प्रधानमंत्री हैर मोसुल को आईएस के कब्जे से आजाद व

1। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मुफ्त आईफोन एप द्धमत्ता (एआई) की क्षमता है। यह दृष्टिहीनों स क्या-क्या है। अगर इस फोन को किसी ोन का कैमरा एप 'सीइंग एआई' सक्रिय हो

ħ

H

स

गों

रा

पा

Place: Delhi

Date: 29.05.2017

ट्रंप फ्रांस पहुंचे

की योजना बनाने वालों समेत 44 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED

Regd Off: D – 16, Ground Floor, Udyog Nagar, Nangloi, Delhi – 110041 Contact No. +91-9899425575, CIN: L74899DL1993PLC056702 Email: supersecurities1993@gmail.com, info_hindsecurities@yahoo.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2017

SI. No	Particulars	Quarter ended 31.03.2017 (Audited)	Year to date figures for current period ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding three months ended in the previous year 31.03.2016 (Audited)
2	Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before tax,	50.57	188.29	24.58
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax	(1.01)	(1.25)	(8.67)
4	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.01)	(1.25)	(8.67)
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.72)	(0.87)	(5.99)
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	(0.72)	(0.87)	(5.99)
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	510.05	510.05	510.05
В	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continiuning and discontinued operations) (a)Basic: (b) Diluted:	(0.01)	(0.02)	(0.12)

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for quarter and Financial Year ended March 31, 2017 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the

SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The above results duly reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board

of Directors in its meeting held on May 29, 2017.

The full format of the Audited Financial Results are available on the webiste of BSE (www.bseindia.com) and Company's website(www.supersecurities.in).

For Hind Securities & Credits Limited

(Jagdish Rai Bansal) Managing Director DIN: 00673384